

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुस्तक में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एकड़ रु. पन्ने हैं यह मापी पुस्तक श्री. अमियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अवर प्रमण्डल.....कोट्टौल्ले को निर्गत किया जाता है।

  
कार्यपालक अभियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमण्डल, भृगुनी  
अमियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग

Sch. XLV—Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

## Measurement Book

No. 2717

Name of Officer \_\_\_\_\_

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_

Name to work—

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

Name of work:- Construction of Road

from Bibhaggar Middle

School to plus bari Road

4 meter (MN 957 - SV)

Agency:- Sri Sandeep Kumar Singh.

Agreement No:- 148/SBD/2020-21

Agreement Rate - 08.51% As per R.O.C.

Date of Start as per Agre - 15-01-2021

Date of Completion as per Agre - 14-10-2021

## Further Measurement

(1) poor setting out

pillars - - - - - 7.02 Hect.

(2) clearing &amp; grubbing

the Road Land - 24,

$$6 \text{ Nos} \times 30.0 \times 3.50 = 630.0 \text{ m}^2$$

$$5 \text{ Nos} \times 30.0 \times 3.50 = 525.0 \text{ m}^2$$

$$8 \text{ Nos} \times 30.0 \times 3.50 = 840.0 \text{ m}^2$$

$$4 \text{ Nos} \times 30.0 \times 3.50 = 420.0 \text{ m}^2$$

$$3 \text{ Nos} \times 30.0 \times 3.50 = 315.0 \text{ m}^2$$

$$1 \text{ Nos} \times 30.0 \times 3.50 = 105.0 \text{ m}^2$$

$$1 \text{ Nos} \times 21.00 \times 3.50 = 73.5 \text{ m}^2$$

$$2908.50 \text{ m}^2$$

$$\Rightarrow 0.291 \text{ Hect.}$$

Continuation

C. O

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
4/8+13 Construction of GSB.	B1F				12,56,442 =
	Qty. made TMB P no 11				
	= 613.94 m <sup>3</sup>				
	CM 3137 = 69/m <sup>3</sup>				19,26,353 =
5/9+14 Pavement W.BM.GR.TC					
	Qty. made TMB P no 11				
	= 43.6654 m <sup>3</sup>				
	CM 3493 = 71/m <sup>3</sup>				17,310 =
6/15 Const of cement concrete pavement with M30					
	Qty. made TMB P no 11				
	= 90.87 m <sup>3</sup>				
	CM 7321 = 71/m <sup>3</sup>				665324 =
7/17 cable duct pipe across to road					
	Qty. made TMB P no 11				
	15m CM 912 = 69/m				14140 =
8/23 P.v. p. & simple HFB4 m.g.t.l. board width 60					
	Qty. made TMB P no 11				
	2m CM 10883 = 78 each				21768 =
9/24 E/w in excavation					
	formula for str.				
	Qty. made TMB P no 11				
	= 59.60 m <sup>3</sup>				
	CM 269 = 32/m <sup>3</sup>				1851 =
	Continuation				
	48 - 130,7,388 =				

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	B1F				₹ 3071388 = ₹
10/25 Providing Face M15 in open trench					
	Qty. value	TMB Pm12			
	= 9.20 m <sup>3</sup>				
	₹ 5838 = ₹ / m <sup>3</sup>				₹ 53711 = ₹
11/26 Providing Face M15 in sub-dr.					
	Qty. value	TMB Pm12			
	= 67.48 m <sup>3</sup>				
	₹ 6651 = ₹ / m <sup>3</sup>				₹ 448841 = ₹
12/27 Providing & laying 10mm dia. NP37 ferme pipe.					
	Qty. value	TMB Pm12			
	15m. ₹ 3877 = ₹ / m				₹ 58166 = ₹
					₹ 3632106 = ₹
	Add 12% C.S.T.				₹ 435853 = ₹
	Add 1% L.C.F.				₹ 36321 = ₹
	Add S.Fee				₹ 24620 = ₹
					₹ 4128900 = ₹
	Less 9.51% below ₹ 391369 = ₹				
					₹ 3777531 = ₹
	Deduct previous				
	Payment				₹ 1971858 = ₹
					₹ 18,05,673 = ₹ monthly
	By				
	✓ 3/5/23				
	F.E.				

Continuation